



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-04-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-04-27 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-04-28	2021-04-29	2021-04-30	2021-05-01	2021-05-02
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0
अधिकतम तापमान(से.)	26.0	27.0	27.0	27.0	26.0
न्यूनतम तापमान(से.)	13.0	13.0	12.0	12.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	20	25	30	30
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	15	15	15	20	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0
पवन दिशा (डिग्री)	310	70	330	310	310
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	1	3	3	3

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 29 अप्रैल से 1 मई को कहीं-कहीं बूँदा-बाँदी हो सकती है। हवा के 6.0-8.0 किमी/घंटे की गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.0 से 27.0 व 12.0 से 13.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ईआरएफएस के अनुसार, 2-8 मई के दौरान राज्य में वर्षा से अधिक तथा अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है। 29 अप्रैल से 1 मई को कहीं-कहीं आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।

### सामान्य सलाहकार:

कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि तैयार फसलों की कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अन्तराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाये रखने पर विशेष ध्यान दें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई व एसपीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल जिले के लिए एनडीवीआई 0.15-0.35 के बीच है, यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम है तथा एसपीआई मानचित्र पिछले 4 हफ्तों से नैनीताल जिले में हल्की सूखे की स्थिति दर्शाता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, 29 अप्रैल से 1 मई को कहीं-कहीं बूँदा-बाँदी हो सकती है लेकिन आमतौर पर मौसम साफ रहेगा।

**फ़सल विशिष्ट सलाह:**

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	मैदानी क्षेत्रों में, मध्य फरवरी में बोई गई बसंत कालीन मक्का की फसल में किसान भाई अपने खेत में सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण तथा यूरिया का छिड़काव सुनिश्चित करें अन्यथा इसका मक्का की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
मसूर की दाल	29 अप्रैल से 1 मई को कहीं-कहीं वर्षा की सम्भावना को देखते हुए, किसान भाई मसूर की फसल की कटाई कर सुनिश्चित स्थान में रखे।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बैंगन	ऊँचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में बैंगन का प्रतिरोपण करें।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पटेरा रोग से बचाव हेतु प्रसव होने के 10 दिन पश्चात् 10-15 सी0सी0 नीम का तेल नवजात को पिला दें। तदपु रांत 10 दिन पश्चात् पुनः 10-15 सी0सी0 नीम का तेल पिला दें। बथुए का तेल इसका रामबाण इलाज है।
गाय	गर्भवती पशुओं में प्यूरपरल बुखार को रोकने के लिए, प्रतिदिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण को पशुओं की प्रतिरक्षा को बढ़ाने हेतु आहार के रूप में दे।